



प्रेस नोट थाना फतेहपुर सीकरी जनपद आगरा ।

थाना फतेहपुर सीकरी पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी करने वाले संगठित गिरोह के 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 04 मोटर साइकिल व अन्य सामान बरामद....

जनपद आगरा में चोरी, लूट, आदि आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिये श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आगरा के आदेशानुसार, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पश्चिमी के निर्देशन में, क्षेत्राधिकारी अछनेरा के सफल पर्यवेक्षण में, थाना प्रभारी फतेहपुर सीकरी को टीम गठित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये ।

इसी क्रम में दिनांक 15.07.2021 की रात्रि को गठित पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति/वाहन हेतु आगरा गेट पर चैकिंग की जा रही था । चैकिंग के दौरान आगरा की ओर से एक मोटर साइकिल आती दिखाई दी जिस पर दो व्यक्ति बैठे थे, जिन्हे चैकिंग हेतु पुलिस टीम द्वारा रुकने का इशारा करने पर मोटर साइकिल सवार ने हडबडा कर तेजी से मोटर साइकिल को पीछे मोड़ने का प्रयास किया तो मोटर साइकिल गिर गयी । पुलिस टीम द्वारा एक बारगी की दबिश देते हुये घेर घोट कर 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया । जिनके कब्जे से 01 अदद मोटर साइकिल व 02 अदद मोबाइल बरामद हुये ।

➤ पूछताछ का विवरण

पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर अभियुक्तगण द्वारा अपना नाम 1. रविन्द्र सिंह पुत्र गोवर्धन निवासी ग्राम टीकरी थाना कागारौल जनपद आगरा 2. जुगनू पुत्र विनोद उर्फ विष्णू निवासी पंचकुईयाँ थाना लोहामण्डी जनपद आगरा बताया । पुलिस टीम द्वारा कड़ाई से पूछताछ करते हुये भागने का कारण पूछा तो अभियुक्तगण द्वारा बताया गया यह मोटर साइकिल चोरी की है जो हमने दोनों ने एक सप्ताह पूर्व कलारगली के पास फतेहपुर सीकरी से चुराई थी । हम लोग एक संगठित गिरोह बनाकर आगरा व आस पास के जनपदों से मोटर साइकिल चुराकर खरीद फरोख्त करते हैं । चोरी की मोटर साइकिलों को सस्ते दामों पर अंजान लोगों को बेच कर रूपये आपस में बाँट लेते हैं । उपरोक्त मोटर साइकिल के सम्बन्ध में थाना फतेहपुर सीकरी पर मु0अ0सं0 156/21 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया था ।





➤ अन्य मोटर साइकिल की बरामदगी

पुलिस टीम द्वारा पूछताछ के दौरान अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि हम दोनों ने अलग अलग स्थानों से चुराई गयी तीन मोटर साइकिलों को उन्देरा नहर से आगे दुरा की तरफ पुरानी धर्मशाला में छिपाया है। पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये अभियुक्तगण द्वारा बताये गये स्थान पर पहुँच तीन मोन मोटर साइकिल 1. स्पलेण्डर प्लस रंग काला बिना नम्बर 2. स्पलेण्डर प्रो रंग काला बिना नम्बर 3. पल्सर रंग काला बिना नम्बर को बरामद किया गयी।

अभियुक्तगण से बरामदगी के सम्बन्ध में थाना फतेहपुर सीकरी पर मु0अ0सं0 163/21 धारा 411/414 भादवि पंजीकृत किया गया।

➤ गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण

01. रविन्द्र सिंह पुत्र गोवर्धन निवासी ग्राम टीकरी थाना कागारौल जनपद आगरा।
02. जुगनू पुत्र विनोद उर्फ विष्णू निवासी पंचकुईयाँ थाना लोहामण्डी जनपद आगरा।

➤ बरामदगी का विवरण

01. 04 अदद मोटर साइकिल बिना नम्बर चोरी की।
02. 02 अदद मोबाइल।

➤ गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

01. प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार शर्मा थाना फतेहपुर सीकरी जनपद आगरा।
02. उ0नि0 श्री मनोज कुमार थाना फतेहपुर सीकरी जनपद आगरा।
03. उ0नि0 श्री सुनील तौमर थाना फतेहपुर सीकरी जनपद आगरा।
04. उ0नि0 श्री अनुज कुमार थाना फतेहपुर सीकरी जनपद आगरा।
05. उ0नि0 श्री फिरोज खान थाना फतेहपुर सीकरी जनपद आगरा।
06. कां0 अजरुद्धीन मंसूरी थाना फतेहपुर सीकरी जनपद आगरा।
07. कां0 लोकेश कुमार थाना फतेहपुर सीकरी जनपद आगरा।

मीडिया सेल जनपद आगरा।

